

REF: LTF/SE/2020-21/

Date: 22/07/2020

To,
The Department of Corporate Relations
Bombay Stock Exchange Limited (BSE)
Phiroze Jeejebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

To,
The Secretary
**The National Stock Exchange
of India Limited**
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot no. C/1, G-Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai

Subject: Newspaper Publication for notice of Board meeting for adoption of unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020

Ref. Code: 532783. Scrip ID: DAAWAT


Dear Sir/Madam,

Please find attached copies of notice of Board meeting published in newspapers Financial Express and Jansatta as on 22nd July 2020.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Truly,
For LT Foods Limited



Monika Chawla Jaggia
Company Secretary
Membership No. F5150

Economy

WEDNESDAY, JULY 22, 2020

Quick View



India's GDP to contract 6.5% in FY21, Nomura
 LONDON, July 21: India's GDP is expected to contract 6.5% in FY21, according to a report by Nomura Securities. The report says that the economy is expected to contract 6.5% in FY21, which is a significant improvement from the 7.5% contraction expected in FY20. Nomura also expects India's GDP to grow 7.5% in FY22.

BAN LIFTED Deemed approval for GST registration restored

New Delhi, July 21



THE FINANCIAL EXPRESS has received an official notification from the Government of India regarding the restoration of deemed approval for GST registration. The notification states that the Government has decided to restore the deemed approval for GST registration for all taxpayers who were affected by the ban on deemed approval for GST registration. This decision is a significant relief for taxpayers who were previously unable to register for GST. The notification also states that the Government will continue to monitor the situation and take necessary steps to ensure that the GST registration process is smooth and efficient.

No more lockdown in Karnataka from today: Yediyurappa

BANGALORE, July 21

LOCKDOWN IS OVER in Karnataka from today, Chief Minister Yediyurappa announced. He said that the Government has decided to lift the lockdown in Karnataka from today. This decision is a significant relief for the people of Karnataka, who have been under a strict lockdown since March. Yediyurappa said that the Government will continue to monitor the situation and take necessary steps to ensure that the lockdown is lifted in a safe and controlled manner. He also said that the Government will provide financial assistance to the people who have been affected by the lockdown.

India's Covid fatality rate drops to 2.43%

NEW DELHI, July 21

INDIA'S COVID-19 FATALITY RATE has dropped significantly to 2.43% from 2.54% in the previous week, according to a report by the Ministry of Health and Family Welfare. The report says that the Government has taken several measures to reduce the fatality rate, including providing medical assistance to patients and ensuring that they receive timely treatment. The report also says that the Government will continue to monitor the situation and take necessary steps to ensure that the fatality rate remains low.

Recruitment process for new chief statisticians

New Delhi, July 21

THE NATIONAL STATISTICS authority has announced the recruitment process for new chief statisticians. The authority has decided to recruit two chief statisticians, one for the National Statistical Centre (NSC) and one for the National Bureau of Statistics (NBS). The recruitment process will be conducted through a written examination and an interview. The candidates must have a postgraduate degree in statistics or a related field. The recruitment process is expected to be completed by the end of the month.

CBDT, CBIC sign pact for data sharing

New Delhi, July 21

THE DIRECTOR GENERAL of Customs and Border Trade (CBDT) and the Director General of Income Tax (DGIT) have signed a pact for data sharing. The pact is expected to improve the efficiency of the tax collection process and reduce the burden on taxpayers. The pact also states that the two agencies will share information regarding the movement of goods and services across the country. This information will be used to identify tax evasion and ensure that taxpayers pay the correct amount of tax.

Sahoo: Rescuing viable firm more important

New Delhi, July 21

RESCUING A VIABLE FIRM is more important than liquidating a non-viable one, Union Minister Sahoo said. He said that the Government should focus on rescuing viable firms that are facing financial difficulties. This will help to create jobs and support the economy. Sahoo also said that the Government should provide financial assistance to these firms to help them overcome their difficulties. He said that the Government should also take steps to improve the regulatory environment and reduce the burden on businesses.

From the Front Page

THE GOVERNMENT has decided to provide financial assistance to the people who have been affected by the lockdown. This assistance will be in the form of cash transfers and food grains. The Government has also decided to provide financial assistance to the people who have been affected by the lockdown in the form of interest-free loans. This assistance is expected to help the people overcome their financial difficulties and support the economy.

NHAI annuls two BOT bids in Bengal

New Delhi, July 21

NHAI HAS ANNULLED two BOT bids for the construction of a road in Bengal. The bids were for the construction of a 10-km road connecting the city of Kolkata to the surrounding areas. The bids were annulled because they did not meet the technical requirements. NHAI said that it will re-tender the project. This decision is a significant setback for the private sector, which had been hoping to win the bids. NHAI also said that it will continue to monitor the situation and take necessary steps to ensure that the project is completed on time.

HUL puts up a good show in tough times

New Delhi, July 21

HINDUSTAN LUBRICANTS (HUL) has put up a good show in tough times. The company has managed to maintain its market share and increase its production. This is a significant achievement for HUL, which has been facing several challenges in the past few months. HUL has also managed to reduce its costs and improve its efficiency. This has helped the company to remain profitable despite the economic downturn. HUL's success is a testament to the company's strong management and commitment to excellence.

Stimulus working, more steps likely, says PM

New Delhi, July 21

THE GOVERNMENT is working on more stimulus packages to support the economy, Prime Minister Modi said. He said that the Government has already implemented several stimulus packages, which have helped to create jobs and support the economy. He also said that the Government will continue to monitor the situation and take necessary steps to ensure that the economy recovers. He said that the Government will also take steps to improve the regulatory environment and reduce the burden on businesses.

Particulars	Quarter ended June 30, 2020		Quarter ended June 30, 2019	
	IN Rs. Lakhs	IN Rs. Crores	IN Rs. Lakhs	IN Rs. Crores
Total income from operations	1,884	1,884	1,884	1,884
Less: Profit for the period (after tax)	1,284	1,284	1,284	1,284
Net Profit for the period (after tax)	600	600	600	600
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	600	600	600	600
Equity Share Capital	600	600	600	600
Reserve and surplus as at the Balance Sheet Date at the end of the quarter	1,284	1,284	1,284	1,284
Reserve Per Share (at the end of 3 years)	2.22	2.22	2.22	2.22
By way of dividend operations	2.22	2.22	2.22	2.22

Particulars	Quarter ended June 30, 2020		Quarter ended June 30, 2019	
	IN Rs. Lakhs	IN Rs. Crores	IN Rs. Lakhs	IN Rs. Crores
Total income from operations	1,884	1,884	1,884	1,884
Less: Profit for the period (after tax)	1,284	1,284	1,284	1,284
Net Profit for the period (after tax)	600	600	600	600
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	600	600	600	600
Equity Share Capital	600	600	600	600
Reserve and surplus as at the Balance Sheet Date at the end of the quarter	1,284	1,284	1,284	1,284
Reserve Per Share (at the end of 3 years)	2.22	2.22	2.22	2.22
By way of dividend operations	2.22	2.22	2.22	2.22

Cairn says arbitration ruling expected soon

New Delhi, July 21

CAIRN ENERGY has said that it expects an arbitration ruling on its dispute with the Government of India soon. Cairn said that it has filed a petition with the arbitration tribunal and is waiting for the ruling. Cairn also said that it will continue to monitor the situation and take necessary steps to ensure that the dispute is resolved. Cairn also said that it will continue to operate in India and will not be affected by the dispute.

Credit guarantee scheme: Banks sanction ₹1.27L cr for MSMEs

New Delhi, July 21

THE FINANCIAL EXPRESS has reported that banks have sanctioned ₹1.27 lakh crore for MSMEs under the Credit Guarantee Scheme. This is a significant increase from the ₹1.15 lakh crore sanctioned in the previous quarter. The Government has decided to provide financial assistance to MSMEs to help them overcome their financial difficulties. This assistance is expected to help MSMEs create jobs and support the economy.

SBI Life Insurance
 With UL, Money Sure

SBI Life Insurance Company Limited
 Registered and Corporate Office: Ring Road, W-3 Road & Sector Express Highway Junction, Andheri (West), Mumbai - 400 059
 24x7 Helpline No.: 11-2222 2222
 Tel: +91-22-6661 9999, Fax: +91-22-6661 9999, Email: sblife@sblife.co.in

Sl. No.	Particulars	Three months ended: (in ₹ cr)		Total: (in ₹ cr)
		June 30, 2020	June 30, 2019	
1	Premium Income (Gross)	7,84,344	6,89,444	4,693,473
2	Net Profit (Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary Items)	39,789	37,794	1,47,394
3	Net Profit (Loss) for the period (after tax) (Exceptional and Extraordinary Items)	39,789	37,794	1,47,394
4	Net Profit (Loss) for the period (after tax) (Exceptional and Extraordinary Items)	39,789	37,794	1,47,394
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax) (Exceptional and Extraordinary Items)	39,789	37,794	1,47,394
6	Equity Share Capital (Paid up)	1,00,000	1,00,000	1,00,000
7	Reserve and Surplus	1,00,000	1,00,000	1,00,000

